



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1941 (श0)

(सं0 पटना 48) पटना, शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

सं० प्र०-1 ल०ज०सं०/स्था० (क० अ०)/संविदा-07/2019-7952

लघु जल संसाधन विभाग

“जल-जीवन-हरियाली” अभियान

संकल्प

13 नवम्बर 2019

**विषय:-** लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कुल-50 (पचास) कनीय अभियंताओं (यॉत्रिक) के नियोजन किये जाने के संबंध में ।

1. लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंताओं (यॉत्रिक) के 146 पद स्वीकृत है । जिसमें 146 (एक सौ छियालीस) पद रिक्त है । कनीय अभियंता के नियुक्ति हेतु अध्याचना विभागीय पत्रांक-1847 दिनांक-08.03.19 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है ।
2. लघु जल संसाधन विभाग में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता (यॉत्रिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक-18.07.2007 के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध 50 (पचास) कनीय अभियंता (यॉत्रिक) का संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.11.2019 को सम्पन्न बैठक (मद संख्या-03) में स्वीकृति प्रदान की गई है ।
3. लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय क्रियान्वयन के निमित्त कनीय अभियंता (यॉत्रिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब के दृष्टिगत कार्यहित में/विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के आधार पर 50 (पचास) कनीय अभियंता (यॉत्रिक) को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा नियमित नियुक्ति किये जाने तक संविदा नियोजन का प्रस्ताव है । इस नियोजन में आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा साथ ही यह नियोजन विज्ञापन के आधार पर किया जायेगा । संविदा आधारित नियोजन के लिए योग्यता सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता के अनुरूप होगी ।

4. संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियन्ताओं को जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०-5494 दिनांक-06.11.2014 द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक ₹27,000(सत्ताईस हजार) प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा ।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 48-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>